



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

प्रयागराज, रविवार, 3 अक्टूबर, 2021 ई०
(आश्विन 11, 1943 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व विभाग

अनुभाग-11

संख्या 711/एक-11-2021-02(जी)/2013

लखनऊ, दिनांक : 03 अक्टूबर, 2021 ई०

अधिसूचना

प०आ०-376

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, सन् 2005) की धारा 7 की उपधारा (1) और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53, सन् 2005) की धारा 14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 3296/1-11-2005-44(जी)-2005, दिनांक 24 नवम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, द्वितीय पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जायेगा, अर्थात्—

“राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त प्राधिकरण में निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यगण होंगे—

1—मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	—	अध्यक्ष (पदेन)
2—लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) श्री रविन्द्र प्रताप साही	—	उपाध्यक्ष
3—मंत्री, कृषि विभाग	—	सदस्य
4—मंत्री, नगर विकास विभाग	—	सदस्य
5—मंत्री, जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	—	सदस्य
6—राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार), आयुष विभाग	—	सदस्य

7-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश	—	सदस्य (पदेन)
8-अपर मुख्य सचिव, गृह	—	सदस्य
9-अपर मुख्य सचिव, राजस्व	—	सदस्य (संयोजक)
विशेष आमंत्रित—		
1-कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश		
2-अपर मुख्य सचिव, वित्त		
3-राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश		

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 711/One-11-2021-2(G)/2013, Lucknow**, dated October 03, 2021 :

NOTIFICATION

No. 711/One-11-2021-2(G)/2013,

Lucknow : dated, October 03, 2021

In exercise of the powers under sub-Section (1) of section 7 of the Uttar Pradesh Disaster Management Act, 2005 (U.P. Act no. 20 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005) the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no. 3296/1-11-2005-44(G)/2005, dated November 24, 2005.

AMENDMENT

In the aforesaid notification for the second paragraph the following paragraph shall be substituted, namely :

“The Governor is further pleased to direct that the aforesaid authority shall consist of the following Chairperson and the members :

1. The Chief Minister of Uttar Pradesh	Chairperson (Ex-Officio)
2. Lt. Gen. (Retd.) Sri Ravindra Pratap Sahi	Vice Chairperson
3. The Minister for Agriculture Department	Member
4. The Minister for Urban Development Department	Member
5. The Minister for Water Resources and Flood Control Department	Member
6. The Minister of State (Independent) for Aayush Department	Member
7. The Chief Secretary, Uttar Pradesh	Member (Ex-Officio)
8. The Additional Chief Secretary, Home	Member
9. The Additional Chief Secretary, Revenue	Member (Coordinator)

Special Invitee :

1. Agriculture Production Commissioner, Uttar Pradesh.
2. The Additional Chief Secretary, Finance.
3. Relief Commissioner, Uttar Pradesh.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Addl. Chief Secretary.